



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 20-05-21

ऑक्सीजन फ्लो मीटर की काला बाजारी करने वाले 02 अभियुक्तगण को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 23 अदद आक्सीजन फ्लो मीटर व मो0सा0 UP14 CZ 4741 बरामद

जनपद में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी को रोकने के दृष्टिगत पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक महोदय द्वारा जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है जिसके अनुक्रम में दिनांक: 19-05-2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद श्री अमित पाठक के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर के परिवेक्षण में सयुक्त कार्यवाही करते हुए ऑक्सीजन फ्लो मीटर की काला बाजारी करने वाले 02 अभियुक्तगण 1- बिलाल पुत्र सगीर निवासी कैला मण्डी वार्ड न0- 23 रावली रोड मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष व 2- फिरोज पुत्र हनीफ निवासी रावली रोड एक मीनार मस्जिद मौहल्ला अन्सारियन कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को दिनांक 19.05.2021 को समय 20.30 बजे तिकोना पार्क के पास नई वस्ती कट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 23 अदद आक्सीजन फ्लो मीटर मय मोटर साईकिल बरामद हुई है। अभियुक्तगण की बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-415/2021 धारा 420 भादवि व 3 महामारी अधिनियम व 52/53 आपदा प्रबन्धन अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण :-

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण भारी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनकी जान बचाने हेतु कोविड के मरीज अपने घरों पर ही रहकर आक्सीजन गैस सिलेण्डर का उपयोग कर आक्सीजन ले रहे हैं। आक्सीजन गैस सिलेण्डर से आक्सीजन लेने के लिए आक्सीजन फ्लो मीटर की आवश्यकता पडती है। जिससे आक्सीजन फ्लो मीटर की भारी माँग उत्पन्न हो गयी है। इस स्थिति का लोगों द्वारा लाभ उठाते हुए ऑक्सीजन फ्लो मीटर को मनचाही कीमत / उँचे दामो पर बेचकर कालाबाजारी की जा रही है। इस कार्य में ऑक्सीजन फ्लो मीटर को मेरठ में जगह-जगह से मेडिकल स्टोर व अस्पतालो से भारी मात्रा में खरीद कर एनसीआर क्षेत्र में लोगों को धोखा देकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर हुए उनसे मनचाही कीमत वसूलते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता :-

बिलाल पुत्र सगीर निवासी कैला मण्डी वार्ड न वर्ष 23 रावली रोड मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 -0

अपराधिक इतिहास अभियुक्त बिलाल :-

1. मु0अ0सं0- 415/2021 धारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 53/52 महामारी अधिनियम व 3 भादवि व 420 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0- 462/2019 धारा 147, 148, 149, 307, 395, 427, 436, 452 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता :-

फिरोज पुत्र हनीफ निवासी रावली रोड एक मीनार मस्जिद मौहल्ला अन्सारियन कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 24 ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त फिरोज :-

1. मु0अ0सं0- 415/2021 धारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 53/52 महामारी अधिनियम व 3 भादवि व 420 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण :-

1. 23 अदद आक्सीजन फ्लो मीटर ।
2. मो0सा0 UP14 CZ 4741 (सीज) ।

